



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 202]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 25, 2005/फाल्गुन 6, 1926

No. 202]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 25, 2005/PHALGUNA 6, 1926

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2005

का.आ. 263(अ).—केंद्रीय सरकार, नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 (1914 का 2) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पादप करंतीन (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पादप करंतीन (भारत में आयात का विनियम) (दूसरा संशोधन) आदेश, 2005 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन की समाप्ति पर तत्काल प्रवृत्त होगा।

2. पादप करंतीन (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 के साथ संलग्न अनुसूची में,—

(i) क्रम संख्या 19 के सामने, स्तंभ (4) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“निम्नलिखित से मुक्त :

(क) फ्यूजेरियमी म्लानी (फ्यूजेरियम ऑक्सीस्योरम एफ.स्पे. कुकुमेरियम)

(ख) काली चित्ती (फोमोप्सिस स्कलेरोटोइड्स)

(ग) सेप्टोरिया लीफ स्पॉट (सेप्टोरिया कुकुरबिटेरम)

(घ) कुकुम्बर सीड - बोर्न वाइरस अर्थात् लीफ स्पॉट

(ङ) वर्टीसिलियम एल्बो-एट्रम

(च) स्कैश मोसैयिक वाइरस ।”

(ii) क्रम सं० 22 के सामने स्तंभ (2) में “अंगूर” प्रविष्टि के सामने स्तंभ (3) में प्रयुक्त,-

(क) विद्यमान मदों “(i) चीन, (ii) फ्रांस, (iii) ईरान, (iv) इटली, (v) न्यूजीलैंड, (vi) दक्षिण अफ्रीका और (vii) संयुक्त राज्य अमेरिका(यू.एस.ए.)” को मद “(i) फ्रांस, (ii) ईरान, (iii) इटली, (iv) चीन, (v) न्यूजीलैंड (vi) दक्षिण अफ्रीका और (vii) संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस.ए.)” के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा ;

(ख) प्रविष्टि “(ii) फ्रांस” के अधीन, मद (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“ (च) लोबेसिया बोद्राना (अंगूर बदरी कीड़ा)”;

(ग) प्रविष्टि “(iii) ईरान” के अधीन, मद (क) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“ (ख) लोबेसिया बोद्राना (अंगूर बदरी कीड़ा)”;

(घ) प्रविष्टि “(iv) इटली” के अधीन, मद (छ) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“ (ज) लोबेसिया बोद्राना (अंगूर बदरी कीड़ा)”;

(iii) क्रम संख्या 25 के सामने स्तंभ (4) में, —

(क) मद “ (झ) मक्का वाइरस” के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :-

“ (झ) माइकोसफरेल्ला जी - मायडिस ।”;

(ख) प्रविष्टि (झ) के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“(ज) बर्खोलडेरिया एंट्रोपोगोलस

(ट) पेंटोइया एग्लोमेरन्स

(ठ) स्युडोमोनस फुसकेविजिन

(ड) स्युडोमोनस सायरिंगे पीवी. कोरोनोफेसियन्स

(ढ) मेज क्लोरोटिक ड्वार्फ मैक्लोवाइरस ।”;

(iv) क्रम संख्या 31 के सामने स्तंभ (4) में मद (ख) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“ (ख) काली मिर्च वाइरस अर्थात् माइल्ड मोजेक, माइल्ड मोटल

(ग) पेरोरोसपोरा हायोसियामी स्पे. टाबासीना

(घ) टमाटर रिंग स्पॉट वाइरस

(ङ) टमाटर काली रिंग वाइरस I"

(v) क्रम संख्या 39 के सामने स्तंभ (5) गुठलीदार फल (उपभोग के लिए ताजे फल) से संबंधित प्रविष्टि (iii) के सामने निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“ (क) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मेडीटेरेनियन फ्रुट फ्लाई (सेरेटाइरटिस कैपीटाटा) और चेरी फ्रुट फ्लाई (अगोलेटिस स्पे) के लिए नाशक जीव मुक्त क्षेत्र की स्थिति ;

(ख) चेरी फ्रुट फ्लाई और मेडीटेरेनियन फ्रुट फ्लाई के विरुद्ध 21° सेल्सियस पर दो घंटे के लिए एमबी फ्युमिगेशन 2ग्राम/एमबी की दर पर या एनएपी पर उससे अधिक या उसके समतुल्य ;

(ग) 10 दिन के लिए 0° सेल्सियस या उससे कम पर ; 11 दिन के लिए 0.55° सेल्सियस या उससे कम पर ; 12 दिन के लिए 1.1° सेल्सियस या उससे कम पर पोतावरण से पूर्व शीतोपचार तथा परिवहन के दौरान चेरी फ्रुट फ्लाई और मेडीटेरेनियन फ्रुट फ्लाई के विरुद्ध शीतलीकरण”

(vi) क्रम संख्या 43 के सामने स्तंभ (4) में मद संख्या (घ) के पश्चात् निम्नलिखित मदें अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“ (ङ) फेरोनोस्पोरा हायोसियामी स्पे. टाबासीना

(च) फोमा एंडीजेना

(छ) वर्टिसिलियम एल्बो-एट्रम

(ज) क्लेवीबेक्टर मिथीजेनेसिस स्पे. सेपोडोनिकस

(झ) पेपिनो मोजेक वाइरस

(ञ) टमाटर स्पर्म वाइरस

(ट) टमाटर काली रिंग वाइरस

(ठ) टमाटर बुसी स्टंट वाइरस

(ड) टमाटर रिंग स्पॉट वाइरस I”;

(vii) क्रम संख्या 44 के सामने स्तंभ (4) में स्तंभ (3) में वर्णित बोन के लिए बीज से संबंधित मद (i) के सामने मद (घ) के पश्चात् निम्नलिखित मदें अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“ (ङ) वर्टिसिलियम एल्बो-एट्रम

(च) स्क्वायस मोजेक वायरस I”

(ix) क्रम संख्या 341 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

क्रम सं.	पादप की जातियां	पादप सामग्री का प्रवर्ग	उद्भव का देश	पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र में सम्मिलित हनी जाने वाली अपेक्षित आंतरिकत धोषणाएं	आयात की विशिष्ट शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“342.	एफेलेन्डा स्वैरोसा	प्रवर्धन के लिए बीज	संयुक्त राज्य अमेरिका	फिटोनेमस पालीडस (स्ट्राबेरी माइक)	45 दिन की अवधि के लिए प्रवेश पश्चात् करंतीन रोपण
343.	बंदगोभी, फुलगोभी, कोलरबी, ब्रुसेल्स, स्प्राउट्स, ब्रोकली, नोल, खोल, चायनीज बंदगोभी और अन्य कोल फसलें (ब्रासीका स्पे.)	(i) बोने के लिए बीज	(i) नीदरलैंड, फ्रांस, चीन गणराज्य, कोरिया, डीपीआर कोरिया आर ओ के, थाईलैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ताइवान, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड	निम्नलिखित से मुक्त : (क) लेटोसफेरिया मैक्यूलेन्स (कृष्ण सतर) (ख) स्यूडोमोनस विरिडिफ्लावा (टमाटर की जीवाणु पर्णशीणता) (ग) स्यूडोमोनस साइरिंगे पीवी, मैकूलिकोला (जीवाणु पर्णघब्ब) (घ) एक्सान्योमोनस कैपेस्ट्रीज पी.वी. कैपेस्ट्रीज (कृष्ण विगलस)	मृदा और करंतीन खरपतवार के बीजों से मुक्त ।
			(ii) डेनमार्क (iii) इटली	कोई नहीं	मृदा और करंतीन खरपतवार के बीजों से मुक्त ।
344.	फरबुड (एबीज स्पे.)	(i) छाल सहित वल्क काष्ठ	(i) यूरोप (पुर्तगाल को छोड़कर)	निम्नलिखित से मुक्त : (क) इप्स टाइपोग्राफस (स्पूस बार्क बीटल) (ख) पिटीपोजेनेस कालकोग्राफस (बार्क बीटल, छह विकृति कारण)	21 सेंटीग्रेड पर या उससे अधिक या उसके समतुल्य तापमान पर 24 घंटे के लिए 48 ग्रा.प्रति क्यूबिक मीटर पर मिथाइल ब्रोमाइड के साथ घूमन या भास्त सरकार के पादप संरक्षण सलाह द्वारा अनुमोदित कोई अन्य उपचार ।

		(ii) छाल वल्क काष्ठ	(ii) उत्तरी अफ्रीका	(ग) टामीकस पिनीपेरडा (बीटल, पाइन) निम्नलिखित से मुक्त :	
				(क) डेड्रोक्टोनस रुफीपेनिस (स्पूस बीटल) (ख) डायोरिसिट्रिया एबीटी वोरैला (फर कौनवामी) (ग) ड्रायोकोइटस कनफ्यूसस (पश्चिमी बालसम बार्क बीटल) (घ) पिटयोक्टीनेस स्पार्सस (बालसम फर बार्क बीटल) (ङ) पोलिग्राफस रुफीपेनिस (फोरआइड स्पूस बार्क बीटल) (च) टॉमीकस पिनीपेरडा (बीटल, पाइन) (छ) बरसाफेन्चस क्साइलोपीलस (पाइनबुड नेमाटोड)	21° सेंटीग्रेड पर और उससे अधिक या उसके समतुल्य तापमान पर 24 घंटे के लिए 48 ग्रा. प्रति क्यूबिक मीटर पर मिथाइल ब्रोमाइड के साथ घूमन या तीस मिनट के लिए 56° सें. ग्रे. (कोर तापमान) पर ताप उपचार या भारत सरकार के पादप संरक्षण सलाह द्वारा अनुमोदित कोई अन्य उपचार । उपचार उद्भव के/पुनः निर्यात के देश में जारी किए गए पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकित किया जाना चाहिए ।
345.	कीवी (एक्टीनीडिया चाइनेसिस और ए. डेलिसिओसा)	(i) उपयोग के फल	(i) इटली	निम्नलिखित से मुक्त : (क) एस्पीडाइओटस नेररी (ओकूबा स्वेल) (ख) सेराटाइटिस (मेडीटेरानियन फ्रूट फ्लाई) (ग) स्पूडोमोनस सिरिंगेइ पी.वी. एवटीनिडाइ (कीवी फल के जीवाणु कैंकर)	(i) सेराटाइटिस केपिटटा (मेडीटेरानियन फ्रूट फ्लाई) के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार नाशक जीव-मुक्त क्षेत्र की स्थिति, या (ii) 21° सें. ग्रे. या उससे अधिक या उसके बराबर तापमान पर साढ़े तीन घंटे के लिए 32 ग्राम/एम् ³ की दर पर एम बी घूमन, या (iii) 13 दिन के लिए 0° सें. ग्रे. या उससे कम पर ; 14 दिन के लिए 0.55° सें. ग्रे.

63891/2005-2

					(घ) स्यूडोमोनस वारिडीफ्लावा (टमाटर की जीवाणु पर्णशीणता (यू.एस.ए))	या कम पर ; 18 दिन के लिए 1.1° सें.ग्रे या कम पर पोट पर लदान से पूर्व शीत उपचार तथा अभिवहन में मेडिटरेनियन फ्रूट फ्लाई के विरुद्ध प्रशीतन ।
			(ii) ईरान		निम्नलिखित से मुक्त : (क) एम्पीडाइओटस नेररी (औकूबा स्केटर) (ख) स्यूडोमोनस विरिडीफ्लावा (टमाटर की जीवाणु पर्णशीणता (यू.एस.ए))	कोई नहीं
346.	कुरुमुम (कार्थामस) टिक्टोरियस	(i) बोन के लिए बीज	(i) जर्मनी		स्यूडोमोनस विरिडीफ्लावा (टमाटर की जीवाणु पर्णशीणता (यू.एस.ए))	(i) कृषि और सहकारिता विभाग के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए आयात की अनुमति है । (ii) मृदा और करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त ।
		(ii) उपभोग के लिए अन्न (बीज)	(ii) आस्ट्रेलिया, मैक्सिको और अर्जेंटाइना		कोई नहीं	निर्यात से पूर्व उद्भव के देश में बीज का निर्जीवीकरण और पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकित किए जाने वाले उपचार की विशिष्टियां ।
347.	विलो (सैलक्स स्पे.)	छाल वल्क के साथ काष्ठ के लट्टे	यूरोप		निम्नलिखित से मुक्त : (क) सपेरडा कारचेरिअस (ग्रेंटर पापुलर लॉगहार्न) (ख) सपेरडा पापुलनिआ (पापुलर बोस्) (ग) ज्यूजेश पाइरिना (बुड लियोवर्ड मोथ)	(i) 21 ⁰ सेंटीग्रेड और उससे अधिक या उसके समतुल्य पर 24 घंटे के लिए 48 ग्रा.प्रति क्यूबिक मीटर पर मिथाइल ब्रोमाइड के साथ धूमन या तीस मिनट के लिए 56 ⁰ सें.ग्रे. पर ताप उपचार या भारत सरकार के पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य उपचार । उपचार उद्भव /पुनः निर्यात के देश में जारी पादप स्वच्छता

					प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकित किया जाना चाहिए । (ii) करंतीन खरपतवार बीजों से मुक्त ।
--	--	--	--	--	--

[फा. सं. 8-5/2004-पीपी.आई (पीटी)]

आशीष बहुगुणा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : पादप करंतीन (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 भारत के राजपत्र में का.आ. 1322(अ) तारीख 18 नवम्बर, 2003 के तहत प्रकाशित हुआ था और तत्पश्चात् उसमें का.आ. 167(अ) तारीख 6.2.2004, का.आ. 427(अ) तारीख 29.3.2004 और का.आ. 644(अ) तारीख 31.5.2004 द्वारा संशोधन किए गए थे ।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2005

S.O. 263(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Destructive Insects and Pests Act, 1914 (2 of 1914), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003, namely:—

- (1) This Order may be called the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (second Amendment) Order, 2005.

(2) It shall come into force immediately on the expiry of ninety days from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In Schedule VI attached to the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2005,-

(i) against serial number 19, in column (4), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

“Free from—

(a) Fusarial wilts (*Fusarium oxysporum f.sp. cucumerinum*)

(b) Black spot (*Phomopsis sclerotoides*)

(c) Septoria leaf spot (*Septoria cucurbitarum*)

(d) Cucumber seed – borne virus viz. leaf spot

(e) *Verticillium albo-atrum*

(f) squash mosaic virus.”

(ii) against serial number 22, in column (4), against the entry “grape” occurring in column (3),-

(a) the existing items “(i) China, (ii) France, (iii) Iran, (iv) Italy, (v) New Zealand, (vi) South Africa and (vii) USA” shall be renumbered as items “(i) France, (ii) Iran, (iii) Italy, (iv) China, (v) New Zealand, (vi) South Africa and (vii) USA;

(b) under the entry “(ii) France”, after item (e), the following item shall be inserted, namely:-

“(f) *Lobesia botrana* (grape berry moth)”;

(c) Under the entry “(iii) Iran”, after item (a), the following item shall be inserted, namely:-

“(b) *Lobesia botrana* (grape berry moth)”;

(d) under the entry “(iv) Italy”, after item (g), the following item shall be inserted, namely:-

“(h) *Lobesia botrana* (grape berry moth)”;

(iii) against serial number 25, in column (4),

(a) for the item “(i) Maize viruses”, the following item shall be substituted, namely:-

“(i) *Mycosphaella zeae-maydis*.”;

(b) after entry (i), the following entries shall be inserted, namely:-

- “(j) *Burkholderia andropogonis*
- (k) *Pantoea agglomerans*
- (l) *Pseudomonas fuscavaginae*
- (m) *Pseudomonas syringae* pv. *coronofaciens*
- (n) Maize chlorotic dwarf machlovirus.”;

(iv) against serial number 31, in column (4), for item (b), the following items shall be substituted, namely:-

“(b) Pepper viruses viz. mild mosaic, mild mottle

(c) *Peronospora hyoscyami* sp. *tabacina*

(d) tomato ring spot virus

(e) tomato black ring virus.”

(v) against serial number 39, in column (5), against entry (iii) relating to Stone fruit (fresh fruits for consumption), the following entries shall be inserted, namely:-

“(a) Pest-free area status for Mediterranean fruit fly (*Ceratitis capitata*) and Cherry fruit flies (*Rhagoletis* spp) as per international standards;

(b) MB fumigation @ 2 gm/m³ for 2 hrs at 21°C or above at NAP or equivalent thereof against cherry fruit flies and Mediterranean fruit fly; or

(c) Pre-shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against cherry fruit flies and Mediterranean fruit fly”

(vi) against serial number 43, in column (4), after item (d), the following items shall be inserted, namely:-

- “(e) *Peronospora hyoscyami* sp. *tabacina*
- (f) *Phoma andigena*
- (g) *Verticillium albo-atrum*
- (h) *Clavibacter michiganensis* sub.sp. *sepedonicus*
- (i) pepino mosaic virus
- (j) tomato aspermy virus
- (k) tomato black ring virus
- (l) tomato bushy stunt virus
- (m) tomato ring spot virus.”;

(vii) against serial number 44, in column (4), against item (i) relating to seeds for sowing, mentioned in column (3), after item (d), the following items shall be inserted, namely:-

- “(e) *Verticillium albo-atrum*
- (f) squash mosaic virus.”

638 41/2005-3

(ix) after serial number 341 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

S.No.	Plant Species	Category of Plant Material	Country of Origin	Additional Declarations required to be incorporated into Phytosanitary Certificate	Special Conditions of Import
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
342.	<i>Aphelandra squarrosa</i>	Plants for propagation	USA	Free From <i>Phytonemus pallidus</i> (strawberry mite)	Post-entry quarantine growing for a period of 45 days.
343.	Cabbage, Cauliflower, Kohlrabi, Brussels sprouts, Broccoli, Knol Khol, Chinese Cabbage and other Cole crops (<i>Brassica</i> spp.)	(i) Seeds for sowing	(i) Netherlands, France China P.R., Korea, DPR Korea ROK, Thailand, Japan, USA, Taiwan, Australia, New Zealand	Free from: (a) <i>Leptosphaeria maculans</i> (black leg) (b) <i>Pseudomonas viridiflava</i> (bacterial leaf blight of tomato) (c) <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>maculicola</i> (bacterial leaf spot) (d) <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>Campestris</i> (black rot)	Freedom from soil and quarantine weed seeds.
344.	Firwood (<i>Abies</i> spp.)	(i) Wood with bark	(ii) Denmark (iii) Italy (i) Europe (except Portugal)	Nil Free from: (a) <i>Ips typographus</i> (Spruce bark beetle) (b) <i>Pityogenes chalcographus</i> (Bark beetle, six dentated) (c) <i>Tomicus piniperda</i> (Beetle, pine)	Freedom from soil and quarantine weed seeds. Fumigation with Methyl bromide at 48 g. per cubic metre for 24 hrs. at 21°C and above or equivalent thereof or any other treatment approved by Plant Protection Adviser to the Government of India. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin/re-export

		(ii) Wood without bark	(ii) North America	Free from : (a) <i>Dendroctonus rufipennis</i> (Spruce beetle) (b) <i>Diorctia abietivorella</i> (Fir coneworm) (c) <i>Dryocoetes confuses</i> (Western balsam bark beetle) (d) <i>Pityokteines sparsus</i> (Balsam fir bark beetle) (e) <i>Polygraphus rufipennis</i> (Four-eyed spruce bark beetle) (f) <i>Tomicus piniperda</i> (Beetle, pine) (g) <i>Bursaphenochus xylophilus</i> (Pine wood nematode)	Fumigation with Methyl bromide at 48 g. per cubic metre for 24 hrs. at 21°C and above or equivalent thereof or heat treatment at 56°C (core temperature) for 30 minutes or any other treatment approved by Plant Protection Adviser to the Government of India. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin/re-export
345.	Kiwi (<i>Actinidia chinensis</i> & <i>A. deliciosa</i>)	(i) Fruits for consumption	(i) Italy	Free from: (a) <i>Aspidiotus nerii</i> (Aucuba scale) (b) <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) (c) <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> (bacterial canker of kiwifruit) (d) <i>Pseudomonas viridiflava</i> (bacterial leaf blight of tomato (USA))	(i) Pest-free area status for <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) as per international standards or (ii) MB fumigation @ 32 gm/m ³ for 3 ½ hrs at 21°C or above or equivalent thereof or (iii) Pre-shipment cold treatment at 0°C or below for 13 days; 0.55°C or below for 14 days; 1.1°C or below for 18 days plus in-transit refrigeration against Mediterranean fruit fly.

			(ii) Iran	Free from: (a) <i>Aspidiotus nerii</i> (aucuba scale) (b) <i>Pseudomonas viridiflava</i> (bacterial leaf blight of tomato (USA))	Nil
346.	Safflower (<i>Carthamus tinctorius</i>)	(i) Seeds for sowing	(i) Germany	Free from <i>Pseudomonas viridiflava</i> (Bacterial leaf blight of tomato (USA))	(i) imports permitted subject to prior approval of Department of Agriculture and Cooperation. (ii) Freedom from soil and quarantine weed seeds.
		(ii) Grains (seeds) for consumption	(ii) Australia, Mexico and Argentina	Nil	Devitalization of seed at the country of origin prior to export and the particulars of treatment to be endorsed on Phytosanitary certificate.
347.	Willows (<i>Salix spp</i>)	Wooden logs with bark/ clefts	Europe	Free from: (a) <i>Saperda carcharias</i> (greater poplar longhorn) (b) <i>Saperda populnea</i> (poplar borer) (c) <i>Zeuzera pyrina</i> (wood leopard moth)	(i) Fumigation with Methyl bromide at 48 g per cubic metre for 24 hrs. at 21°C and above or equivalent there of or heat treatment at 56°C for 30 minutes or any other treatment approved by the Plant Protection Adviser to the Government of India. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the Country of Origin/re-export. Freedom from quarantine weeds seeds.

[F. No. 8-5/2004-PPI(Pl.)]

ASHISH BAHUGUNA, Jr. Secy.

Note: The Plant Quarantine (Regulation of import into India) Order, 2003 was published in the Gazette of India vide S.O. 1322 (E) dated 18th November, 2003, subsequently amended vide S.O. 167(E) dated 6.2.2004, S.O.427(E) dated 29th March, 2004 and S.O. 644(E) dated 31.5.2004.